



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 271]
No. 271]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 22, 1979/श्रावण 31, 1901
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 22, 1979/SRAVANA 31, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1979

सीमा-शुल्क

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd August, 1979

CUSTOMS

सां०का०नि० 512(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 73 के अन्तर्गत आने वाले स्पंज लोहे को, जब उसका विद्युत आर्क भट्टी में उपयोग के लिए भारत में निर्यात किया जाए,—

(क) उस पर उद्ग्रहणीय उस सम्पूर्ण सीमा शुल्क से जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है; और

(ख) पश्चात् कथित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण प्रतिरिक्त सीमाशुल्क से,

छूट देती है।

परन्तु यह तब जब कि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो गया हो कि आयातित स्पंज लोहा का, वास्तव में, विद्युत आर्क भट्टी में उपयोग किया जाता है।

2. यह अधिसूचना तारीख 31 मार्च, 1980 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 179/फा० सं० 355/22/79-सी०शु०-1]

G.S.R. 512(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts sponge iron, falling within Chapter 73 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for use in electric arc furnace, from :—

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule ; and

(b) the whole of the additional duty of customs leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act ;

Provided that the proper officer is satisfied that the imported sponge iron is in fact used in electric arc furnace.

This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1980.

[No. 179/F. No. 355/22/79-Cus. I]

सांकां नि० 513(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 31 की उपधारा (4) के साथे पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 104-सीमाशुल्क, तारीख 10 मई, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम सं० 228 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“229 सं० 179 सीमाशुल्क.

तारीख 22 अगस्त, 1979”

[सं० 180/फा० सं० 355/22/79-सी०शु०-1]

क० चन्द्रमौली, अवर सचिव

G.S.R. 513(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-section (4) of section 31 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 104-Customs, dated the 10th May, 1979, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after serial number 228 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

“229 No. 179—Customs, dated the 22nd August, 1979”.

[No. 180/F.No. 355/22/79-Cus.-I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.